



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 13] नई दिल्ली, अप्रैल 20—अप्रैल 26, 2008, शनिवार/चैत्र 31—वैशाख 6, 1930

No. 13] NEW DELHI, APRIL 20—APRIL 26, 2008, SATURDAY/CHAITRA 31—VAISHAKHA 6, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पुस्तक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये आदेश और अधिसूचनाएँ
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2008

आ. अ. 40.—जबकि, निर्वाचन आयोग का सम्मान हो गया है कि नीचे की सारणी (2) में यथा विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए जो स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तंभ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्विनियमित हुए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तंभ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और, जबकि, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायवचित्य नहीं है ;

अतः, अब निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ क्षेत्र राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

सारणी

क्र. सं.	निर्वाचन क्षेत्र का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निराहता का कारण
1	2	3	4	5
1.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007	2-धामपुर	श्री मोहन सिंह, ग्रा. ककपला, प्रो. महुआ, उत्तर प्रदेश।	निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	-वही-	-वही-	श्री निमेष कुमार, ग्रा. सीकरी बुजुर्ग, उत्तर प्रदेश।	-वही-
3.	-वही-	-वही-	श्री वीर सिंह, ग्रा. बेगराजपुर, उत्तर प्रदेश।	-वही-
4.	-वही-	-वही-	श्री राकेश कुमार, ग्रा. नसीरपुर बुजुर्ग, उत्तर प्रदेश।	-वही-
5.	-वही-	20-स्वार रॉड	श्री राजेश कुमार, ग्रा. बिजार खाता (उत्तरी), तह. स्वार, रामपुर।	-वही-
6.	-वही-	-वही-	श्री कौसर खां, ग्रा. नरपतनगर, तह. स्वार, रामपुर।	-वही-
7.	-वही-	-वही-	श्री रमजानी, ग्रा. व. पो. मुरसैना, तह. सदर, रामपुर।	-वही-
8.	-वही-	-वही-	श्री सख्तावत, ग्रा. दंडियाल ऐहतमाली, तह. स्वार, रामपुर।	-वही-
9.	-वही-	21-रामपुर	श्री जमीर अहमद, ग्रा. हरैटा, पो. भोट, रामपुर, उत्तर प्रदेश।	-वही-
10.	-वही-	-वही-	श्री सफदर अली, म. नं. 128 शुतरखाना, कोहना, रामपुर।	-वही-
11.	-वही-	23-शाहबाद (अ.जा.)	श्री जमना प्रसाद, ग्रा. व. पो. डुंडई, तह. सदर, रामपुर।	-वही-
12.	-वही-	-वही-	श्री रामधार, ग्रा. ताजपुर बेहटा, तह. शाहबाद, रामपुर।	-वही-
13.	-वही-	-वही-	श्री हंसराज, ग्रा. व. पो. सैफनी, तह. शाहबाद रामपुर।	-वही-
14.	-वही-	25-मुन्नीर	श्री कृष्ण मुन्नीर, ग्रा. शाहपुर, पो. ईसमपुर डांडा, उत्तर प्रदेश।	-वही-
15.	-वही-	42-बरखेड़ा (अ. जा.)	श्री राधेश्याम, ग्रा. व. पो. रूँधचाई, तह. पूरनपुर।	-वही-
16.	-वही-	45-मुषायां (अ.जा.)	श्री रामसतन सागर, हरदयाल कृषा, मुषायां, राष्ट्रजहरपुर।	-वही-

1	2	3	4	5
17.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007	45-पुवाया (अ.ज.)	श्री हलध्वज, सैदापुर डाकघाट, पुवाया, उत्तर प्रदेश।	निर्वाचन व्यर्थ का कोई भी लेख दाखिल करने में असफल रहे।
18.	-वही-	-वही-	श्री रामकुमार, चौडेर, पुवाया, उत्तर प्रदेश।	-वही-
19.	-वही-	46-निगोहा	श्री हीरा कली, प्रा. ग्वार, पो. तिलहर, उत्तर प्रदेश।	-वही-
20.	-वही-	-वही-	श्री कारीराम, प्रा. डमौरा, उत्तर प्रदेश।	-वही-
21.	-वही-	-वही-	श्री मुकेश कुमार, प्रा. व. पो. मुर्छा, उत्तर प्रदेश।	-वही-
22.	-वही-	-वही-	श्री राजपाल, प्रा. चकसफौरा, तिलहर, उत्तर प्रदेश।	-वही-
23.	-वही-	-वही-	श्री स्तीरा, प्रा. व. पो. बिछोली, उत्तर प्रदेश।	-वही-
24.	-वही-	-वही-	श्रीराम, प्रा. व. पो. अजीजपुर, उत्तर प्रदेश।	-वही-
25.	-वही-	47-तिलहर	श्री राजपाल, प्रा. करकौर, पो. जैतीपुर, शाहजहाँपुर।	-वही-
26.	-वही-	-वही-	श्री दोरराम कुरावाहा, प्रा. जेखरागढ़, तिलहर, शाहजहाँपुर।	-वही-
27.	-वही-	-वही-	श्री महमूद, प्रा. चौबटी मजरा, खमरिया, पो. खमरिया, शाहजहाँपुर।	-वही-
28.	-वही-	-वही-	श्री मोहम्मद खां, प्रा. मिल्कीपुर, तिलहर, शाहजहाँपुर।	-वही-
29.	-वही-	-वही-	श्री जगतपाल, प्रा. दिवुनी, पो. सिहरा, तिलहर, शाहजहाँपुर।	-वही-
30.	-वही-	-वही-	श्री निशीकान्त, प्रा. व. पो. जैतीपुर, तिलहर, शाहजहाँपुर।	-वही-
31.	-वही-	50-शाहजहाँपुर	श्री ओमकार सिंह वर्मा, प्रा. बलेली, वन निगोही, शाहजहाँपुर।	-वही-
32.	-वही-	-वही-	श्री देव नारायण, प्रा. पडैनिया, थाना जैतीपुर तिलहर, शाहजहाँपुर।	-वही-
33.	-वही-	-वही-	श्री सर्वेश चन्द्र धौधू, रेलवे कोलाही, रीजा, शाहजहाँपुर।	-वही-
34.	-वही-	-वही-	श्री अम्बरहीश कुमार गुप्ता, पो. नई बाजार, महमूदगढ़, सीतापुर।	-वही-

1	2	3	4	5
35.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007	60-महमूदाबाद	श्री नरेंद्र सिंह, 208 ग्रा. व. पो. गोष्ठा देवरिया, महमूदाबाद सीतापुर।	निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
36.	-वही-	61-सिधौली (अ.जा.)	श्री रयानलाल, ग्रा. व. पो. उचा खेरा अजई, सीतापुर।	-वही-
37.	-वही-	62-लहरपुर	श्री सईद अहमद, मो. कसबाती टोला, खैराबाद, सीतापुर।	-वही-
38.	-वही-	-वही-	डा. महेश कुमार वर्मा, ग्रा. टकेला, पो. करस्यौरा सीतापुर।	-वही-
39.	-वही-	70-बांगरमऊ	श्री अब्दुल रुज्जाक, 11/111, मकबरा ग्वालदौली, कानपुर, कानपुर नगर।	-वही-
40.	-वही-	-वही-	श्री नरेश कुमार, मो. गुलाम मुस्तफा, बांगरमऊ उन्नाव।	निर्वाचन व्यर्थों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे।
41.	-वही-	-वही-	श्री परमोद कुमार, ग्रा. मुर्तजापुर, पो. गंज, जलालाबाद, उन्नाव।	-वही-
42.	-वही-	-वही-	श्री फजलुर्रहमान, मो. गुलाम मुस्तफा, बांगरमऊ, उन्नाव।	-वही-
43.	-वही-	-वही-	श्री यमुनन्दन प्रसाद, ग्रा. अतरधनी, उन्नाव।	-वही-
44.	-वही-	-वही-	श्री सौरभ, नौनिहालगंज, बांगरमऊ, जि. उन्नाव।	-वही-
45.	-वही-	77-सफीपुर (अ.जा.)	श्री प्रमोद कुमार, एफ-5343 राजाजीपुरम, लखनऊ।	निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
46.	-वही-	-वही-	श्री रमेश, चौ. बालाकन टोला, कस्बा सफीपुर, उन्नाव।	-वही-
47.	-वही-	-वही-	श्री रामकृष्ण, मो. मिर्चों बाजार सफीपुर, उन्नाव।	-वही-
48.	-वही-	-वही-	श्री सतीश कुमार, ग्रा. देवगांव सह. सफीपुर, उन्नाव।	-वही-
49.	-वही-	7-हठह	श्री राजाराम लोधी, ग्रा. भकदूमपुर, पो. कुसुम्भी, उन्नाव।	-वही-
50.	-वही-	-वही-	श्री विशाल सिंह उर्फ राजा भैया, एच आई जी, 497/7 आवास विकास कौलश विहार, कल्यानपुर, कानपुर।	-वही-

1	2	3	4	5
51.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007	79-इडडा	श्री सुन्दरलाल, ग्रा. व पो. तौरा, उन्नाव ।	निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।
52.	-वही-	80-भगवन्त नगर	श्री नीरज बाजपेई, मो. बाजीखेड़ा, पो. बीभापुर, उन्नाव ।	-वही-
53.	-वही-	-वही-	श्री रजनीश कुमार, ग्रा. बाजीखेड़ा, पो. ऊँचगाँव, उन्नाव ।	-वही-
54.	-वही-	-वही-	श्री रवि शंकर, ग्रा. व पो. बिहार, उन्नाव ।	-वही-
55.	-वही-	108-इसौली	श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र, ग्रा. पूरे चन्द्रिका मिश्र, मकरो बीही निदूरा, पो. बल्दीगय, जि. सुलतानपुर ।	-वही-
56.	-वही-	-वही-	मो. अरशद पवार, गौरा बारभऊ, गौरा लोरिया, जि. सुलतानपुर ।	-वही-
57.	-वही-	-वही-	श्री राम कुमार सिंह, लाल बैरा, ग्रा. व पो. महमूदपुर, जि. सुलतानपुर ।	-वही-
58.	-वही-	-वही-	श्री जितेन्द्र प्रताप, ग्रा. व पो. पीरो सरैया, जि. सुलतानपुर ।	-वही-
59.	-वही-	-वही-	श्री रमेश सिंह, 858, सीता कुण्ड, सुलतानपुर ।	-वही-
60.	-वही-	-वही-	श्री राम सिंह, ग्रा. व पो. तिरहुत, जि. सुलतानपुर ।	-वही-
61.	-वही-	-वही-	श्री सत्य कुमार, हलियापुर, सुलतानपुर ।	-वही-
62.	-वही-	-वही-	श्री वेद प्रकाश, ग्रा. टंडवा पो. अतरौलिया, जि. आजमगढ़ ।	-वही-
63.	-वही-	131-फखरपुर	मो. अकील उल्ला, पो. सिटी, चाँदपुरा, उत्तर प्रदेश ।	-वही-
64.	-वही-	-वही-	मोहम्मद शफी, मो. बशीरगंज, उत्तर प्रदेश ।	-वही-
65.	-वही-	-वही-	श्री देवेश कुमार, ग्रा. भेटकहा पो. तारापुर खुर्द, उत्तर प्रदेश ।	-वही-
66.	-वही-	-वही-	श्री मुरली, ग्रा. मछिहा पो. सुतौली, उत्तर प्रदेश ।	-वही-
67.	-वही-	-वही-	श्री राम नाथ, ग्रा. मोहम्मदपुर, पो. फखरपुर, उत्तर प्रदेश ।	-वही-
68.	-वही-	-वही-	श्री शिवनाथ, ग्रा. मुकाम, पो. हरिहरपुर, उत्तर प्रदेश ।	-वही-

1	2	3	4	5
69.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007	31-फखरपुर	श्री सौलेन्द्र कुमार, ग्रा. व. पो. मंझारा तौकली, उत्तर प्रदेश ।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।
70.	-वही-	-वही-	श्री सुनील कुमार, खेसुआ मुस्तफाबाद, उत्तर प्रदेश ।	-वही-
71.	-वही-	144-मुजेरना	श्री संजय कुमार, ग्रा. अर्जुन बनकटी सिंह, पो. डेबरीकला, बि. गोण्डा ।	-वही-
72.	-वही-	191-नाथपूर	श्री रामानन्द, ग्रा. चकवसूपुर, पो. बीबीपुर, तह. मधुबन, उत्तर प्रदेश ।	-वही-
73.	-वही-	-वही-	श्री बसन्त, ग्रा. व. पो. सिपाह, इक़ाहिमाबाद, तह. मधुबन, उत्तर प्रदेश ।	-वही-
74.	-वही-	-वही-	श्री रामकृष्ण, ग्रा. व. पो. सिकरीकोल, तह. मधुबन, उत्तर प्रदेश ।	-वही-
75.	-वही-	-वही-	श्री दीरेन्द्र, ग्रा. कोटियामाफी पो. बहादुरपुर, तह. मधुबन, उत्तर प्रदेश ।	-वही-
76.	-वही-	203-मोहम्मदाबाद गोरना (अ.आ.)	श्री बालेश्वर, ग्रा. खानपुर, पो. पल्लिगढ़, बि. मऊ ।	-वही-
77.	-वही-	-वही-	श्री शिवानन्द, ग्रा. चकभगवानदास, पो. मुहम्मदाबाद सिपाह, बि. मऊ ।	-वही-
78.	-वही-	-वही-	श्री हरिनाथ, ग्रा. आरीपुर, पो. नदवासराय, बि. मऊ ।	-वही-
79.	-वही-	-वही-	श्री सुरेन्द्र, ग्रा. व. पो. बलीदपुर, बि. मऊ ।	-वही-
80.	-वही-	204-मऊ	श्री राम नारायण, ग्रा. चोरपा कला, पो. महमोहम्मदपुर, मऊ ।	-वही-
81.	-वही-	-वही-	श्री विजयौराम, ग्रा. समोगर देवदह, पो. अरदौना, मऊ ।	-वही-
82.	-वही-	-वही-	श्री भुनीलाल, ग्रा. रकौली, पो. बहादुरगंज, मऊ ।	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे ।
83.	-वही-	291-बिधूना	श्री कल्पना, लोहा बाजार, कस्बा बिधूना, औरैया ।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।
84.	-वही-	-वही-	श्री कैलाश नारायण, मानिकपुर विशु, तह. इटावा, बि. इटावा ।	-वही-

1	2	3	4	5
85.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007	291-बिधूना	श्री प्रमोद कुमार, लोहा बाजार, कस्बा बिधूना, औरैया।	निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
86.	-वही-	351-सादाबाद	श्री अजय चौधरी, गौपरा, पो. लसीगा, सादाबाद, उत्तर प्रदेश।	-वही-
87.	-वही-	-वही-	श्री दिनेश कौशिक, मो. घाघड़ वाला, बाई पास रोड सादाबाद, उत्तर प्रदेश।	-वही-
88.	-वही-	-वही-	श्री देवेन्द्र कुमार, ग्रा. चमरपुरा, पो. रसगवाँ, सादाबाद, उत्तर प्रदेश।	-वही-
89.	-वही-	-वही-	श्री राशिकांत, ग्रा. बरौस, पो. बासमरू, सादाबाद, उत्तर प्रदेश।	-वही-
90.	-वही-	354-सिकन्दराबाद- राऊ	श्री युवराज सिंह, नि. रतिमानपुर, त. सिकन्दराऊ, जि. हाथरस।	-वही-
91.	-वही-	-वही-	श्री अमनोश कुमार ऊर्फ अमनीत कुमार, ग्रा. व. पो. गन्धारीशाहपुर, तह. सिकन्दराऊ, जि. हाथरस।	-वही-
92.	-वही-	-वही-	श्री जगदीश, ग्रा. व. पो. टीकरी कलां, जि. हाथरस।	-वही-
93.	-वही-	-वही-	श्री महावीर सिंह, ग्रा. हुसैनपुर रतनपुर, तह. सिकन्दराऊ, जि. हाथरस उत्तर प्रदेश।	-वही-
94.	-वही-	-वही-	श्री रमेश चन्द्र, नि. भिंसी मिर्जापुर ह. खास, तह. सिकन्दराऊ, जि. हाथरस।	-वही-
95.	-वही-	-वही-	श्री राजेन्द्र सिंह, ग्रा. हुसैनपुर रतनपुर, त. सिकन्दराऊ, जि. हाथरस।	-वही-
96.	-वही-	-वही-	श्री सुनील कुमार, नि. रतिमानपुर, तह. सिकन्दराऊ, जि. हाथरस।	-वही-
97.	-वही-	372-गाजियाबाद	श्री अमरेश कुमार श्रीवास्तव, बी-3/347 सैक्टर-34, नोएडा, जि. गौतमबुद्धनगर।	-वही-
98.	-वही-	-वही-	श्री अनील चौबे, आर.सी.-16 सुभाष पार्क, खोदा कालोनी, गाजियाबाद।	-वही-
99.	-वही-	-वही-	श्री मुकेश, 358 रामनगर, गाजियाबाद।	-वही-
100.	-वही-	-वही-	श्री अब्दुल कदूरुम सैफी, ग्रा. बिपियान बुजुर्ग पो. खास, जि. गौतमबुद्धनगर।	-वही-

1	2	3	4	5
101.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007	372-गाजियाबाद	श्री अजय कुमार, 489-490 ग्राउन्ड फ्लोर, न्याय खण्ड-II, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद ।	निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।
102.	-वही-	-वही-	श्री सुखबीर शर्मा, एफ बी-121, लाजपतनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद ।	-वही-
103.	-वही-	-वही-	श्री शिवकुमार, म.नं. 86, नया 1158, छोटा कैला, बाल्मीकि नगर, गाजियाबाद ।	-वही-
104.	-वही-	375-हापुड़ (अ.जा.)	श्री धर्मपाल, पुत्र बलवन्त, मौ. भीमनगर, हापुड़ ।	-वही-
105.	-वही-	-वही-	कृ. मियलेश, प्रा. दादरी, तह. हापुड़, गाजियाबाद ।	-वही-
106.	-वही-	388-कांथला	श्री ओमपाल, ग्रा. कसौली, पो. चौकड़ा, मुजफ्फरनगर ।	-वही-
107.	-वही-	-वही-	श्री ओमपाल पुत्र रघुबीर, गढ़ी सख्तावत जौला, उत्तर प्रदेश ।	-वही-
108.	-वही-	-वही-	श्री ओमपाल पुत्र भवर सिंह, गढ़ी सख्तावत जौला, उत्तर प्रदेश ।	-वही-
109.	-वही-	-वही-	श्री प्रदीप कुमार, मोहल्ला रायबादगान, कस्बा कांथला, उत्तर प्रदेश ।	-वही-
110.	-वही-	390-जानसत	श्री यशवीर सिंह, प्रा. अलीपुर कला, जि. मुजफ्फरनगर ।	-वही-
111.	-वही-	-वही-	श्री राजकली, ग्रा. अलीपुर कला, जि. मुजफ्फरनगर ।	-वही-
112.	-वही-	-वही-	श्री अजय कुमार, ग्रा. मनचेड़ा, थाना शाहपुर, जि. मुजफ्फरनगर ।	-वही-
113.	-वही-	-वही-	श्री अनिल, ग्रा. करहेड़ा, डा. तिस्सा, जि. मुजफ्फरनगर ।	-वही-
114.	-वही-	-वही-	श्री प्रमोद कुमार, कस्बा जानसत, जि. मुजफ्फरनगर ।	-वही-
115.	-वही-	-वही-	श्री मनोज कुमार, म. नं. 31/2, मौ. कोटला, कस्बा मीरपुर, मुजफ्फरनगर ।	-वही-
116.	-वही-	-वही-	श्री सुरेश चन्द खिलोरिया, म. नं. 77, मौ. तहवरपुर, कस्बा मीरपुर, मुजफ्फरनगर ।	-वही-
117.	-वही-	391-मोरना	श्री चन्दर, म. नं. 193, ग्रा. गोधना, मुजफ्फरनगर ।	-वही-

1	2	3	4	5
118.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007	391-मोरना	श्री सत्यवीर सिंह, ग्रा. पचैण्डा खुर्द, मुजफ्फरनगर।	निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
119.	-वही-	-वही-	श्री अरुण कुमार, ग्रा. युसुफपुर, मुजफ्फरनगर।	-वही-
120.	-वही-	-वही-	श्री प्रदीप, ग्रा. भोपा, मुजफ्फरनगर।	-वही-
121.	-वही-	-वही-	श्री इकबाल अहमद, ग्रा. भोपा, मुजफ्फरनगर।	-वही-
122.	-वही-	-वही-	श्री राजेन्द्र प्रसाद, ग्रा. खुर्जेडा, मुजफ्फरनगर।	-वही-
123.	-वही-	-वही-	श्री वितेन्द्र, पो. मुस्तर्क, मीरपुर, मुजफ्फरनगर।	-वही-
123.	-वही-	-वही-	श्री विक्रम सिंह, घ. नं. 272, ग्रा. सिखेडा, मुजफ्फरनगर।	-वही-
125.	-वही-	392-मुजफ्फरनगर	श्री जमशेद (खान), 357, ग्रा. भडूरा, तह. सदर, डा. भोपा, मुजफ्फरनगर।	-वही-
126.	-वही-	-वही-	श्री नौराद, 304, महमूद नगर, मुजफ्फरनगर।	-वही-
127.	-वही-	-वही-	श्री ललित जैन, 19, नवाब गंज पूर्वी, मुजफ्फरनगर।	-वही-
128.	-वही-	-वही-	श्री ललित मोहन, 138/1 इन्द्रा कालोनी, मुजफ्फरनगर।	-वही-
129.	-वही-	-वही-	श्री नीरज कुमार, 570/66 नालापर-3 चौई मण्डी, मुजफ्फरनगर।	-वही-
130.	-वही-	-वही-	श्री ब्रजभान, आदर्श कालोनी, निकट शिव मन्दिर, मुजफ्फरनगर।	-वही-
131.	-वही-	-वही-	श्री विजय उर्फ विजय कश्यप, 210-मौ. आवकारी, डा. खास, मुजफ्फरनगर।	-वही-
132.	-वही-	393-चरथावल (अ.ज.)	श्री माधवराम, 22, रेशमपुरी, मुजफ्फरनगर।	-वही-
133.	-वही-	-वही-	श्रीमती कुसुमलता, 383, उत्तरी सिविल लाइन, मुजफ्फरनगर।	-वही-
134.	-वही-	-वही-	श्री विरेन्द्र पुत्र वाराचन्द्र, ग्रा. व. पो. बहेड़ी, जि. मुजफ्फरनगर।	-वही-
135.	-वही-	-वही-	श्री विरेन्द्र पुत्र मुंगलु, ग्रा. अलीपुर कलां, पो. अलीपुर खेडी, जि. मुजफ्फरनगर।	-वही-

1	2	3	4	5
136.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007	393-चरथावल (अ.जा.)	श्री अरविन्द, म. नं. 70, मोहल्ला बुडाबाबू शामली, जि. मुजफ्फरनगर।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
137.	-वही-	-वही-	श्री सोमपाल, ग्रा. टाण्डा, पो. हसनपुर लुहारी, जि. मुजफ्फरनगर।	-वही-
138.	-वही-	-वही-	श्री विनोद कुमार, उर्फ विनोद कश्यप, म. नं. 118, गांधी मोहल्ला कसेरुखेड़ा, जि. मेरठ।	-वही-
139.	-वही-	-वही-	श्री दीपक, ग्रा. व पो. लुहारी खुर्द, जि. मुजफ्फरनगर।	-वही-
140.	-वही-	-वही-	श्री रगुबीर, ग्रा. व पो. छपार, जि. मुजफ्फरनगर।	-वही-
141.	-वही-	395-कैराना	श्री धर्मवीर, मोहल्ला इन्दिरा कालोन्नी, शामली, मुजफ्फरनगर।	-वही-
142.	-वही-	-वही-	श्री देवपाल सिंह कश्यप, मोहल्ला दयानन्द नगर, कस्बा व तह. शामली, मुजफ्फरनगर।	-वही-
143.	-वही-	-वही-	श्री सुभाष, म. नं. 127, सुभाष नगर, कस्बा बनत, तह. शामली, मुजफ्फरनगर।	-वही-
144.	-वही-	-वही-	श्री अमित, ग्रा. खेडीकरमू, तह. शामली, मुजफ्फरनगर।	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे।
145.	-वही-	-वही-	श्री इकराम, म. नं. 160, मोहल्ला दरवार कलां, कस्बा व तह. कैराना, मुजफ्फरनगर।	-वही-
146.	-वही-	-वही-	श्री वरपाल सिंह, म. नं. 6, विकास नगर, शामली, मुजफ्फरनगर।	-वही-
147.	-वही-	399-नागल (अ.जा.)	श्री जसवीर, ग्रा. चौन्दाहेड़ी, पो. झबरेड़ा, जि. सहारनपुर।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
148.	-वही-	-वही-	श्री दलीप, ग्रा. न्यामतपुर, पो. भन्नेड़ा, जि. सहारनपुर।	-वही-
149.	-वही-	-वही-	श्री राजबीर, ग्रा. टिटौली, पो. शामली, मुजफ्फरनगर।	-वही-
150.	-वही-	400-देवबन्द	श्री विनय कुमार, ग्रा. व पो. खाईखेड़ी, जि. मुजफ्फरनगर।	-वही-

1	2	3	4	5
151.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007	400-देवबन्द	श्रीमती निशि, ग्र. व पो. खाईखेड़ी, जि. मुजफ्फरनगर।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा रखित करने में असफल रहे।
152.	-वही-	401-हरौड़ा (अ.जा.)	श्री पल्लुराम, ग्र. पापड़ेकी रसूलपुर पो.कैलाशपुर, सहारनपुर।	-वही-
153.	-वही-	403-मुजफ्फराबाद	हाजी अहसानुल्ला, मो. सड़कपार, कस्बा बेहट, सहारनपुर।	-वही-
154.	-वही-	-वही-	श्री चन्द्रपाल, ग्र. कबीरपुर, पो. न्यामतपुर, सहारनपुर।	-वही-
155.	-वही-	-वही-	श्री अ. कादिर, मो. सड़कपार, कस्बा बेहट, सहारनपुर।	-वही-
156.	-वही-	-वही-	श्री लखमीर सिंह, ग्र. व पो. रणडौल, तह. बेहट, सहारनपुर।	-वही-

[सं. 76/उ. प्र.-वि. स./2007]

आदेश से,
बर्नार्ड जॉन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 7th April, 2008

O.N. 40.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the table below at the General Elections to the Legislative Assembly in the State of Uttar Pradesh as specified in column (2) held from the Constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge the account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said table;

And, whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notices and/or the Election Commission, after considering the representation made by them, if any is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/ Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

Sl. No	Particulars of election	Number & Name of the Constituency	Name & Address of Contesting Candidate	Reason of disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2007.	2-Dhampur	Sh. Mohan Singh, Village Kakrala, Post Mahuwa, Uttar Pradesh.	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
2.	- do -	- do -	Sh. Nibhrash Kumar, Village Seekri Buzurg, Uttar Pradesh.	- do -

1	2	3	4	5
3.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2007.	2-Dhampur	Sh. Veer Singh, Village Begrajpur, Uttar Pradesh.	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
4.	- do -	- do -	Sh. Rakesh Kumar, Village Naseerpur Buzurg, Uttar Pradesh.	- do -
5.	- do -	20-Suar Tanda	Sh. Rajesh Kumar, Vill. Bijarkhata (Utri), Teh. Swar, Rampur.	- do -
6.	- do -	- do -	Sh. Kosar Khan, Vill. Narpatnagar, Teh. Swar, Rampur.	- do -
7.	- do -	- do -	Sh. Ramjane, Vill. & P.O. Mursena, Teh. Sadar Rampur.	- do -
8.	- do -	- do -	Sh. Sakhawat, Vill. Dadhyal- Ahtmal, Teh. Swar, Rampur.	- do -
9.	- do -	21-Rampur	Sh. Zamir Ahmad, Vill. Hareta, P.O. Bhot, Rampur, Uttar Pradesh.	- do -
10.	- do -	- do -	Sh. Safdar Ali, H.No. 128 Moh. Shutar Khana Kohna, Rampur.	- do -
11.	- do -	23-Shahabad (SC)	Sh. Jamna Prasad, Vill. & Post Dundai, Teh. Sadar, Rampur.	- do -
12.	- do -	- do -	Sh. Ramdhar, Vill. Tajpur Behta, Teh. Shahbad, Rampur.	- do -
13.	- do -	- do -	Sh. Hans Raj, Vill. & P.O. Saifai, Teh. Shahbad, Rampur.	- do -
14.	- do -	25-Gunnaur	Sh. Krishna Murari, Vill. Shahpur, Post- Isampur, Danda, Uttar Pradesh.	- do -
15.	- do -	42-Barikhera (SC)	Sh. Radhey Shyam, Vill. & P.O. Ghunghchai, Tehsil Puranpur, Uttar Pradesh.	- do -
16.	- do -	45-Powayan (SC)	Sh. Ramsaran Sagar, Hardayal Koocha, Powayan, Shahjahanpur.	- do -
17.	- do -	- do -	Sh. Lal Chand, Saidapur Dabchat, Powayan, Shahjahanpur.	- do -
18.	- do -	- do -	Sh. Ramkumar, Chaudhera, Powayan, Uttar Pradesh.	- do -

1	2	3	4	5
19.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2007.	46-Nigohi	Sh. Heera Kali, Vill. Gwar, Post Tilhar, Uttar Pradesh.	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
20.	- do -	- do -	Sh. Kashi Ram, Vill. Dabhora, Uttar Pradesh.	- do -
21.	- do -	- do -	Sh. Mukesh Kumar, Vill. & Post Murchha, Uttar Pradesh.	- do -
22.	- do -	- do -	Sh. Rajpal, Vill. Chak Safora, Tilhar, Uttar Pradesh.	- do -
23.	- do -	- do -	Sh. Satish, Vill. & Post Bichhauri, Uttar Pradesh.	- do -
24.	- do -	- do -	Sh. Shriram, Vill. & Post Ajijpur, Uttar Pradesh.	- do -
25.	- do -	47- Tilhar	Sh. Rajpal, Vill- Karkaur, Post Jaitipur, Shahjahanpur.	- do -
26.	- do -	- do -	Sh. Dodram Kushwaha, Moh. Jerbargad, Tilhar, Shahjahanpur	- do -
27.	- do -	- do -	Sh. Mahaveer, Vill- Maughati Majra Khamariya, Post Khamariya, Shahjahanpur.	- do -
28.	- do -	- do -	Sh. Moyeed Khan, Vill- Milkepur, Tilhar, Shahjahanpur.	- do -
29.	- do -	- do -	Sh. Jagatpal, Vill Dyoonce, Post Siyura, Tilhar, Shahjahanpur.	- do -
30.	- do -	- do -	Sh. Nisheekant, Vill. & Post Jaitipur Tilhar, Shahjahanpur.	- do -
31.	- do -	50-Shahjahanpur	Sh. Omkar Singh Varma, Vill- Balelee, Thana Nigohi, Shahjahanpur.	- do -
32.	- do -	- do -	Sh. Dev Narayan, Vill- Padainiya, Thana Jaitipur, Tilhar, Shahjahanpur.	- do -
33.	- do -	- do -	Sh. Sarvesh Chandra Dhandboo, Railway Colony Roza, Shahjahanpur.	- do -

1	2	3	4	5
34.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2007.	60- Mahmudabad	Sh. Ambrabish Kumar Gupta, Moh- Nai Bazar, Mahmudabad, Sitapur.	Failed to lodge any account of his/her election expenses Uttar Pradesh.
35.	- do -	- do -	Sh. Narendra Singh, 208 Vill. & Post Gonda Deoria, Mahmudabad, Sitapur.	- do -
36.	- do -	61-Sidhauli (SC)	Sh. Shyam Lal, Vill. & P.O. Uchakherajai, Sidhauli, Sitapur.	- do -
37.	- do -	62-Laharpur	Sh. Sayeed Ahmad, Moh. Kasbati Tola, Khairabad, Sitapur.	- do -
38.	- do -	- do -	Dr. Mahesh Kumar Verma, Vill. Takela, P.O. Karsyora, Sitapur.	- do -
39.	- do -	76- Bangarmau	Sh. Abdul Rajjak, 11/11 Makbara Gwal Toli Kanpur, Kanpur Nagar.	- do -
40.	- do -	- do -	Sh. Naresh Kumar, Moh. Gulam Mustfa Bangarmau, Unnao.	Failed to lodge the account of his/her election expenses in the manner required by law.
41.	- do -	- do -	Sh. Parmod Kumar, Vill. Murajapur, P.O. Ganj Jalalabad, Unnao.	- do -
42.	- do -	- do -	Sh. Fazlurrahman, Moh. Gulam Mustfa, Bangarmau, Unnao.	- do -
43.	- do -	- do -	Sh. Yadunandan Prasad, Vill. Atardhani, Unnao.	- do -
44.	- do -	- do -	Sh. Saurabh, Naunihal Ganj, Bangarmau, Distt. Unnao.	- do -
45.	- do -	77-Safipur (SC)	Sh. Pramod Kumar, F-5343 Rajaji Puram, Lucknow	Failed to lodge any account his/her election expenses.
46.	- do -	- do -	Sh. Ramesh, Moh. Chalakan Tola Kasba Safipur, Unnao.	- do -
47.	- do -	- do -	Sh. Ram Krishan, Moh. Miya Bazar, Safipur, Unnao.	- do -
48.	- do -	- do -	Sh. Satish Kumar, Vill. Deogaon, Tehsil Safipur, Unnao.	- do -

1	2	3	4	5
49.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2007.	79-Hadha	Sh. Rajaram Lodhi, Vill. Makdoo Pur, P.O. Kusumbhi, Unnao.	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
50.	- do -	- do -	Sh. Vishal Singh alias Raja Bhaiya, HIG 497/7 Awas Vikas Kailash Vihar, Kalyanpur, Kanpur.	- do -
51.	- do -	- do -	Sh. Sundar Lal, Vill. & P.O. Taura, Unnao.	- do -
52.	- do -	80-Bhagwantnagar	Sh. Neeraj Bajpay, Moh. Gandhi Nagar, Tehsil Bighapur, Unnao.	- do -
53.	- do -	- do -	Sh. Rajneesh Kumar, Vill. Bajkhera, P.O. Oonchgaon Sani, Tehsil Bighapur, Unnao.	- do -
54.	- do -	- do -	Sh Ravi Shankar, Vill. & P.O. Bihar, Tehsil Bighapur, Unnao.	- do -
55.	- do -	108-Isauli	Sh. Virendra Kumar Misra, Village- Pure Chandrika Misra, Majre Vihi Nidura, Post- Baldi Rai, Distt- Sultanpur.	- do -
56.	- do -	-do-	Mo. Arshad Pawar Gaura Baramau Gaura Lohariya, Sultanpur.	- do -
57.	- do -	- do -	Sh. Ram Kumar Singh "Lal Bhaiya", Village & Post Mahmoodpur, Distt. Sultanpur.	- do -
58.	- do -	- do -	Sh. Jitendra Pratap, Village & Post- Piro Saraiya, Distt- Sultanpur.	- do -
59.	- do -	- do -	Sh. Ramesh Singh, 858- Sita Kund, Sultanpur.	- do -
60.	- do -	- do -	Sh. Ram Singh, Village & Post Tirhut, Distt. Sultanpur.	- do -
61.	- do -	- do -	Sh. Satya Kumar, Haliyapur, Sultanpur.	- do -
62.	- do -	- do -	Sh. Ved Prakash, Village- Tandawa, Post- Atraulia, Distt. Azamgarh.	- do -
63.	- do -	131-Fakharpur	Mo. Aquil Ullah, P.O. City Chandpura, Uttar Pradesh.	- do -

1	2	3	4	5
64.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2007.	131-Fakharpur	Mohammad Shafi, Moh. Bashirganj, Uttar Pradesh.	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
65.	- do -	- do -	Sh. Devesh Kumar, Vill.- Metukaha, Post- Tarapur Khurd, Uttar Pradesh.	- do -
66.	- do -	- do -	Sh. Murlee, Vill.- Machhiha, P.O. Sutaoli, Uttar Pradesh.	- do -
67.	- do -	- do -	Sh. Ram Nath, Vill.- Mohammadpur, Post- Fakharpur, Uttar Pradesh.	- do -
68.	- do -	- do -	Sh. Shivnath, Vill.- Mukam, P.O. Hariharpur, Uttar Pradesh.	- do -
69.	- do -	- do -	Sh. Shailendra Kumar, Vill. & Post Majhara Taukali, Uttar Pradesh.	- do -
70.	- do -	- do -	Sh. Sunil Kumar, Vill.- Khesua Mustafabad, Uttar Pradesh.	- do -
71.	- do -	144-Mejhna	Sh. Sanjay Kumar, Vill. Arjun Bankati Singh, Post Debri Kala, Distt. Gonda.	- do -
72.	- do -	191-Natthupur	Sh. Ramanand, Vill. Chakvaksapur, P.O. Bibipur, Tah. Madhuban, Uttar Pradesh.	- do -
73.	- do -	- do -	Sh. Basant, Vill. & P.O. Sipah Ibrahimabad, Tah. Madhuban, Uttar Pradesh.	- do -
74.	- do -	- do -	Sh. Ram Kripal, Vill. & P.O. Sikarika, Tah. Madhuban, Uttar Pradesh.	- do -
75.	- do -	- do -	Sh. Virendra, Vill. Kotiyamafi, P.O. Bahadurpur, Tah. Madhuban, Uttar Pradesh.	- do -
76.	- do -	203-Mohammadabad Gohna (SC)	Sh. Baleshwar, Vill. Khanpur, P.O. Paligarh, Distt. Mau.	- do -
77.	- do -	- do -	Sh. Shivanand, Vill. Chakbhagvandas, P.O. Mohammadabad Sipah, Distt. Mau.	- do -

1	2	3	4	5
78.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2007.	203-Mohammadabad Gohna (SC)	Sh. Harinath, Vill. Aaripur, P.O. Nadva Saria, Distt. Mau. Uttar Pradesh.	Failed to lodge any account of his/her election expenses
79.	- do -	- do -	Sh. Surendra, Vill. & P.O. Validpur, Distt. Mau.	- do -
80.	- do -	204-Mau	Sh. Ramnarayan, Vill. Chorpakala, P.O. Mathmohammadpur, Distt. Mau.	- do -
81.	- do -	- do -	Sh. Vijayi Ram, Vill. Samogar Devdah, P.O. Ardauna, Distt. Mau.	- do -
82.	- do -	- do -	Sh. Munni Lal, P.O. Bahadurganj, Distt. Mau.	Failed to lodge the account of his/her election expenses in the manner required by law
83.	- do -	291-Bidhuna	Kalpna, Loha Bazar, Kaswa Bidhuna, Auraiya.	Failed to lodge any account of his/her election expenses
84.	- do -	291-Bidhuna	Sh. Kailash Narayan, Manikpur Vishu, Tahsil Etawah, / Distt. Etawah.	- do -
85.	- do -	- do -	Sh. Pramod Kumar, Loha Bazar, Kaswa Bidhuna, Auraiya.	- do -
86.	- do -	351-Sadabad	Dr. Ajay Chaudhary, Vill. Gopra, Post Tasinga, Sadabad, Uttar Pradesh	- do -
87.	- do -	- do -	Sh. Dinesh Kaushik, Mohalla Chawad Wala Bye-Pass Road, Sadabad, UP.	- do -
88.	- do -	- do -	Sh. Devendra Kumar, Vill. Chamarpara, Post Rasgawan, Sadabad, U.P.	- do -
89.	- do -	- do -	Sh. Sashi Kant, Vill. Baros, Post Basamru, Sadabad, Uttar Pradesh	- do -
90.	- do -	354-Sikandra Rao	Sh. Yuvraj Singh, Ratibhanpur, Teh. Sikandrarao, Distt. Hathras.	- do -
91.	- do -	- do -	Sh. Avaniish Kumar alias A vanit Kumar, Vill. P.O. Ganthari Shahpur, Teh. Sikandrarao, Distt. Hathras.	- do -
92.	- do -	- do -	Sh. Jagdish, Vill. & P.O. Tikari Kalan, Distt. Hathras.	- do -

1	2	3	4	5
93.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2007.	354-Sikandra Rao	Sh. Mahaveer Singh, Vill. Hussainpur Ratanpur, Teh. Sikandrarao, Distt. Hathras, Uttar Pradesh.	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
94.	- do -	- do -	Sh. Ramesh Chandra, R/o Bhishi Mirzapur, P.O. Khas, Teh. Sikandrarao, Distt. Hathras.	- do -
95.	- do -	- do -	Sh. Rajendra Singh, Vill. Hussainpur Ratanpur, Teh. Sikandrarao, Distt. Hathras.	- do -
96.	- do -	- do -	Sh. Sunil Kumar, Vill. Ratibhanpur, Teh. Sikandrarao, Distt. Hathras.	- do -
97.	- do -	372-Ghaziabad	Sh. Amaresh Kumar Srivastava, B-3/347, Sector-34, Noida, Distt. - Gautam Budh Nagar.	- do -
98.	- do -	- do -	Sh. Anil Chaubey, R.C.-16, Subhash Park, Khora Colony, Ghaziabad.	- do -
99.	- do -	- do -	Sh. Mukesh, 358, Ram Nagar, Ghaziabad.	- do -
100.	- do -	- do -	Sh. Abdul Kayyum Saifi, Village-Chippiyana Bujurg, Post Khas, Distt. - Gautam Budh Nagar, Ghaziabad.	- do -
101.	- do -	- do -	Sh. Ajay Kumar, 489-490, Ground Floor, Nyay Khand-II, Indirapuram, Ghaziabad.	- do -
102.	- do -	- do -	Sh. Sukhvir Sharma, FB-121, Lajpat Nagar, Sahibabad, Ghaziabad.	- do -
103.	- do -	- do -	Sh. Shivkumar, H.No. 86, New 1158, Chhota Kaila, Balmiki Nagar, Ghaziabad.	- do -
104.	- do -	375-Hapur (SC)	Sh. Dharmpal S/o Balwant, Bhirunagar, Hapur.	- do -
105.	- do -	- do -	Ku. Mithlesh, Vill. Dadri, Hapur, Ghaziabad.	- do -
106.	- do -	388-Kandhla	Sh. Ompal, Vill. & P.O. - Kasauli, P.O. Chokra, Muzaffarnagar.	- do -
107.	- do -	- do -	Sh. Ompal S/o Raghubir, Garhi Sakhawati-Jaula, Uttar Pradesh.	- do -
108.	- do -	- do -	Sh. Ompal S/o Bhawar Singh, Garhi Sakhawati-Jaula, Uttar Pradesh.	- do -

1	2	3	4	5
109.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2007.	388-Kandhla	Sh. Pradeep Kumar, Moh. Rayjadgan, Kandhla, Uttar Pradesh.	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
110.	- do -	390-Jansath (SC)	Sh. Yashvir Singh, Vill. Alipur Kala, Muzaffarnagar.	- do -
111.	- do -	- do -	Sh. Rajkali, Vill. Alipur Kala, Muzaffarnagar.	- do -
112.	- do -	- do -	Sh. Ajay Kumar, Vill. Mandhera, P.S. Shahpur, Muzaffarnagar.	- do -
113.	- do -	- do -	Sh. Anil, Vill. Karhera, P.O. Tissa, Muzaffarnagar.	- do -
114.	- do -	- do -	Sh. Pramod Kumar, Kasba-Jansath, Muzaffarnagar.	- do -
115.	- do -	- do -	Sh. Manoj Kumar, H.No. 31/2 Mohalla Cofla Kasba Miranpur, Muzaffarnagar.	- do -
116.	- do -	- do -	Sh. Suresh Chand Titoria, H.No. 77, Mohalla Tahvar Pura, Kasba Miranpur, Muzaffarnagar.	- do -
117.	- do -	391-Moma	Sh. Chandar, H.No. 193, Vill. Godhna, Muzaffarnagar.	- do -
118.	- do -	- do -	Sh. Satyavir Singh, Vill. Pachenda Khurd, Muzaffarnagar.	- do -
119.	- do -	- do -	Sh. Varun Kumar, Vill. Yusufpur, Muzaffarnagar.	- do -
120.	- do -	- do -	Sh. Pradeep, Vill. Bhopa, Muzaffarnagar.	- do -
121.	- do -	- do -	Sh. Iqbal Ahamad, Vill. Bhopa, Muzaffarnagar.	- do -
122.	- do -	- do -	Sh. Rajendra Prasad, Vill. Khujeda, Muzaffarnagar.	- do -
123.	- do -	- do -	Sh. Jitendra, Moh. Mushtark, Meeranpur, Muzaffarnagar.	- do -
124.	- do -	- do -	Sh. Vikram Singh, H.No. 272, Vill. Sikhera, Muzaffarnagar.	- do -
125.	- do -	392-Muzaffarnagar	Sh. Jamsbed (Khan), 357, Village Bhandura, Tehsil Sadar, P.O. Bhopa, Muzaffarnagar.	- do -
126.	- do -	- do -	Sh. Naushad, 304 Mahmood Nagar, Muzaffarnagar.	- do -

1	2	3	4	5
127.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2007.	392-Muzaffarnagar	Sh. Lalit Jain, 19 Nawab Gung Purvi, Muzaffarnagar.	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
128.	- do -	- do -	Sh. Lalit Mohan, 138/1 Indira Colony, Muzaffarnagar.	- do -
129.	- do -	- do -	Sh. Neeraj Kumar, 570/66, Nalapur-3, New Mandi, Muzaffarnagar.	- do -
130.	- do -	- do -	Sh. Braj Bhan, Adersh Colony, Near Shiv Mandir, Muzaffarnagar.	- do -
131.	- do -	- do -	Sh. Vijay alias Vijay Kashyap, 210 Mohalla Abkari, P.O. Khas, Muzaffarnagar.	- do -
132.	- do -	393-Charthawal (SC)	Sh. Maghav Ram, 22 Raidaspuri, Muzaffarnagar.	- do -
133.	- do -	- do -	Smt. Kusum Lata, 383-Civil Line North, Muzaffarnagar.	- do -
134.	- do -	- do -	Sh. Virendra S/o Tarachand, VIII. & Post Baheri, Distt. Muzaffarnagar.	- do -
135.	- do -	- do -	Sh. Virendra S/o Manglu, Village Alipur Kala, Post Alipur Kheri, Distt. Muzaffarnagar.	- do -
136.	- do -	- do -	Sh. Arvind, H.No. 70, Mohalla Budha Babu, Shamli, Distt. Muzaffarnagar.	- do -
137.	- do -	- do -	Sh. Sompal, Village Tanda, Post Hasanpur, Luhari, Distt. Muzaffarnagar.	- do -
138.	- do -	- do -	Sh. Vinod Kumar alias Vinod Kashyap, H.No.- 118, Gandhi Mohalla Kaserukhera, Distt. Meerut.	- do -
139.	- do -	- do -	Sh. Deepak, Village & Post Luhari Khurd, District Muzaffarnagar.	- do -
140.	- do -	- do -	Sh. Ragubir, Village and Post Chhappar, Distt. Muzaffarnagar.	- do -
141.	- do -	395-Kairana	Sh. Dharmvir, Moh.- Indira Colony, Shamli, Muzaffarnagar.	- do -

1	2	3	4	5
142.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2007.	395-Kairana Moh.- Dayanand Nagar,	Sh. Dev Pal Singh Kashyap, Town & Teh. Shamli, Muzaffarnagar.	Failed to lodge any account of his/her election expenses
143.	- do-	- do-	Sh. Subhash, H.No. 127, Subhash Nagar, Town- Bara, Teh.- Shamli, Muzaffarnagar.	- do-
144.	- do-	- do-	Sh. Amit, VIII.- Kheri Karna, Teh.- Shamli, Muzaffarnagar.	Failed to lodge the account of his/her election expenses in the manner required by law
145.	- do-	- do-	Sh. Ikram, H.No.- 160, Moh.- Darbar Kalan, Town & Teh.- Kairana, Muzaffarnagar.	- do-
146.	- do-	- do-	Sh. Yashpal Singh, H.No.-6, Vikas Nagar, Shamli, Muzaffarnagar.	- do-
147.	- do-	399-Nagal (SC)	Sh. Jasveer, VIII. Choundaheri, P.O. Jhabra, Distt. Saharanpur.	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
148.	- do-	- do-	Sh. Daleep, VIII. Nyamatpur, P.O. Bhanhera, Teh. Deoband, Saharanpur.	- do-
149.	- do-	- do-	Sh. Rajbeer, VIII. Titoli, P.O. Shamli, Distt. Muzaffarnagar.	- do-
150.	- do-	400-Deoband	Sh. Vinay Kumar, VIII. & P.O. Khaikheri, Distt. Muzaffarnagar.	- do-
151.	- do-	- do-	Smt. Nishi, VIII. & P.O. Khaikheri, Distt. Muzaffarnagar.	- do-
152.	- do-	401-Harora (SC)	Sh. Pakturam, VIII. Paapadeki Rasulpur, P.O. Kailashpur, Saharanpur.	- do-
153.	- do-	403-Muzaffarabad	Haji Ahsanullah, Sadak Par, Behat, Saharanpur.	- do-
154.	- do-	- do-	Sh. Chandra Pal, Kabirpur, Nyamatpur, Saharanpur.	- do-
155.	- do-	- do-	Sh. A. Qadir, Moh. Sadakpar, Town & Post Behat, Saharanpur.	- do-
156.	- do-	- do-	Sh. Lakhamir Singh, Village & Post Rundaal, Tehsil Behat, Saharanpur.	- do-

[No. 76/UP-LA/2007]

By Order,

BERNARD JOHN, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2008

आ. अ. 41.—जबकि, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी (2) में यथा विनिर्दिष्ट उत्तराखण्ड राज्य से विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए जो स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तंभ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तंभ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और, जबकि, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्पत्ति सूचना दिये जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः, अब निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हता घोषित करता है ।

सारणी

क्र. सं.	निर्वाचन क्षेत्र का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1.	उत्तराखण्ड राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007	30-धूमाकोट	श्री अनिल चतुर्वेदी, बलभद्रपुर कोटद्वार, जिला पौड़ी, गढ़वाल ।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।
2.	-वही-	-वही-	श्री आदित्य राम जोशी, ग्राम-मंज्याडी पट्टी-इडियाकोट मल्ला, पोस्ट-धिरौली, तह. धूमाकोट, जिला पौड़ी, गढ़वाल ।	-वही-
3.	-वही-	31-बीरेंछाल	श्री चित्र सिंह, ग्राम डांगू मल्ला, पोस्ट सिरौली, पट्टी-खाटली, पौड़ी गढ़वाल ।	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे ।
4.	-वही-	32-लैन्सडौन	श्री सुन्दर सिंह चौहान, गा. सतपुली, पो. ओ. तह. सतपुली, पौड़ी, गढ़वाल, उत्तराखण्ड ।	-वही-
5.	-वही-	-वही-	श्री विनोद नेगी, गा.-खुण्डोली पट्टी कौडिया, पो. ओ. गुमछाल, जिला गढ़वाल ।	-वही-
6.	-वही-	-वही-	श्री ओम प्रकाश, गा.-चमोलीसैण, पो. ओ. बांघाट, तहसील सतपुली, पौड़ी गढ़वाल ।	-वही-
7.	-वही-	-वही-	श्री नरेन्द्र धस्माना, तपोवन रोड, साइपूर डांग, धाना रायपुर, देहरादून ।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।
8.	-वही-	41-पिण्डर (अ.ज.)	श्री हरीश पंचवाल, गा. बलाण, पो. बलाण, तह. थराली, जि. चमोली, उत्तराखण्ड ।	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे ।
9.	-वही-	56-रामनगर	श्री भुवन चन्द्र, इन्दिरा कोलोनी खताडी, रामनगर, उत्तराखण्ड ।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।

1	2	3	4	5
10.	उत्तराखण्ड प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007	59-बाजपुर	श्री जाकिर अली, ग्रा. धनसरा, तह. बाजपुर, उत्तराखण्ड ।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।
11.	-वही-	-वही-	शहीद अहमद बडे, ग्रा. भदैया रत्ना, वार्ड नं. 5, केलाखेड़ा, तह. बाजपुर, उत्तराखण्ड ।	-वही-
12.	-वही-	-वही-	श्री गुरमीत सिंह, ग्रा. भुडिया भनी, तह. बाजपुर, उत्तराखण्ड ।	-वही-
13.	-वही-	-वही-	श्री भगवान सिंह, ग्रा. हरलालपुर ताली फार्म, बाजपुर, उत्तराखण्ड ।	-वही-
14.	-वही-	-वही-	श्री मंजीत सिंह पुनिया, मचरा बखश, वार्ड नं. 9, तह. बाजपुर, उत्तराखण्ड ।	-वही-

[सं. 76/उत्तरा-वि.स./2007]

आदेश से,
बर्नार्ड जॉन, सचिव**ORDER**

New Delhi, the 7th April, 2008

O.N. 41.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the table below at the General Elections to the Legislative Assembly in the State of Uttarakhand as specified in column (2) held from the Constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge the account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said table;

And, whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notices and/or the Election Commission, after considering the representation made by them, if any is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either house of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/ Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

Sl. No	Particulars of election	Number & Name of the Constituency	Name & Address of Contesting Candidates	Reason of Disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttarakhand, 2007.	30-Dhumakot	Sh. Anil Chaturvedi, Balbhadrapur, Kotwar, Distt. Pauri, Garhwal.	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
2.	- do -	- do -	Sh. Aditya Ram Joshi, Village-Manjyadi, Patty- Idiyakot Malla, Post-Ghiroli, Tehsil-Dhumakot, Pauri, Garhwal.	- do -

1	2	3	4	5
3.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttarakhand, 2007.	31-Bironkhal	Sh. Chitra Singh, Village-Dangu Malla, Post-Siroli, Patti Khatli, Pauri Garhwal.	Failed to lodge the account of election expenses in the manner required by law.
4.	- do -	32-Lansdowne	Sh. Sunder Singh Chauhan, Village-Satpuli, Post-Satpuli, District Pauri Garhwal, Uttarakhand.	- do -
5.	- do -	- do -	Sh. Vinod Negi, Village-Khundoli, Patti Kauriya, PO-Gumkhal, District-Pauri Garhwal.	- do -
6.	- do -	- do -	Sh. Om Prakash, Village-Chamolisen, PO-Banghat, Teh-Satpuli, Pauri Garhwal,	- do -
7.	- do -	- do -	Sh. Narendra Dhasmana, Tapovan Road, Ladpur Dang, Thana Raipur, Dehradun.	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
8.	- do -	41-Pindar (S.C.)	Sh. Harish Panchwal, Vill. Balan, Post Balan, Teh. Tharali, Distt. Chamoli. Uttarakhand.	Failed to lodge the account of election expenses in the manner required by law.
9.	- do -	56-Ramnagar	Sh. Bhuwan Chandra, Indira Colony, Khatari, Ramnagar, Uttarakhand.	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
10.	- do -	59-Bazpur	Sh. Jakir Ali, Vill. Dhansara, Tehsil Bazpur, Uttarakhand.	- do -
11.	- do -	- do -	Shaheed Ahmed Bade, Ratna Maddhiya, Ward No. 5, Kelashera, Tehsil Bazpur, Uttarakhand.	- do -
12.	- do -	- do -	Sh. Gurmeet Singh, Vill. Mundia Mari, Tehsil Bazpur, Uttarakhand.	- do -
13.	- do -	- do -	Sh. Bhagwan Singh, Vill. Harlapur Tali Farm, Tehsil Bazpur, Uttarakhand.	- do -
14.	- do -	- do -	Sh. Manjeet Singh Puniya, Majra bax Ward No. 9, Tehsil Bazpur, Uttarakhand.	- do -

(No. 76/UKH-LA/2007)

By Order,
BERNARD JOHN, Secy.